## भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FILM AND TELEVISION INSTITUTE OF INDIA

चिकित्स १०३ / Med. 103

	की पत्नी / पुत्र / पुत्री ————————————————————————————————————				
	को दिया गया प्रमाणपत्र.				
Certi	ficate granted to Mrs. /Mr. / Miss				
	daughter of shri / smt				
mployed in	n the Film and Television Institute of India.				
	प्रमाणपत्र 'क' / CERTIFICATE 'A'				
	(उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती नहीं किये गए रोगियों के मामलें में भरा जाए)				
(To be co					
	ompleted in the case of patients who are not admitted to hospital for treatment)				
ਛॉ.─	एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूं कि :-				
(ক)	मैने निम्नलिखित दिनांक को उपने परामर्श कक्ष /				
	रोगी के निवासस्थान पर परामर्श के लिए प्रभार के				
	रुप में रु. प्राप्त किये ।				
Dr	hereby certify:-				
(a)	that I charged and received Rs for				
	consultation(S) on at my				
(77)	consulting room / at the residence of the patient.				
(ख)	मैने निम्नलिखित दिनांकों को  उपने परामर्श कक्ष / रोगी के निवासस्थान पर अंतशिरा / अंतपेशी अवत्वचीय इंजेक्शन लगाने के प्रभार स्वरुप रु.				
/61	^				
(b)	that I charged and received Rs for administering				
	Intra- venous/intra-muscular/sub-cutaneous injection onat my consulting room/at the residence of patient. (date to be given)				
( <del>-</del> )					
(ग)	रोगी के दिये गए इंजेक्शन प्रतिरक्षण अथवा रोगनिरोध हेतू दिए गए थे । नहीं दिए गए थे ।				
(c)	that the injections administered were / were not for immunising for prophylactic purpose रोगी का अस्पताल / मेरे परामर्श कक्ष				
(ঘ)					
	संबंध में मेरे द्वारा दी गयी दवाएं उनके स्वास्थ्य सुधारने हेतु /हालत गंभीर होने से बचाने के लिए आवश्यक थी ।				
	गैर सरकारी रोगियों को देने के लिए दवाएं				
	(अस्पताल का नाम)				
	में उपलब्ध नहीं है और इन दवाइयों में स्वयं की तैयार की हुई ऐसी दवाइयां शामिल नहीं है, जिनके समान चिकित्सीय मूल्य के सस्ते पदार्थ बाजार में उपलब्ध है और नहीं. इन दवाइयोंमे मुख्य रूप से आहार /प्रसाधन				
(4)	सामग्री /रोगानुनाशक कोई विरचना है । शामिल है । that the patients has been under treatment at				
(d)	hospital/my consulting room, and that the undermentioned medicines prescribed by me				
	this connection were essential for the recovery / prevention of serious deterioration in the				
	condition of the patient. The medicines are not stockes in the				
	Name of Hospital				
	for supply to private patients and do not include proprietary preparations for which chea				
	substances of equal therapeutic value are available not preparations which are primarily				
	foods, toilebs or disinfectants.				
	100a), toliebo di diolificatalito.				

क. संख्या		दवाइयों के नाम			
S. No.		Name of Medicines	,	मूल्य Price	, _
		Traine of Wicaleffice	,	₹. Rs.	पै. Ps
				<u> </u>	
-					
				+	+-
					$\perp$
					+
					$\perp$
	(च)	रोगी		10.0.00	3 . 3
	(4)	मैं उसका उपचार दिनांक		नामक/बामारी से पीडित	है/था और
	(e)	that the patient is/was suffering	from	तक करता रहा	`हू∕था।
	101				
	300 GES 10	and is / was under my treatment			
		and is / was under my treatment रोगी का प्रसवपर्व / प्रसवोत्तर उपचार कि			
	(छ)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किर	या गया है था ।		
		रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given	या गया है था । n pre-natal or pot+naal	treatment.	स्वर्च
	(চ) (f)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण	या गया है था । n pre-natal or pot+naal आदि के	treatment. लिए रु.	खर्च लिए गए ।
	(চ) (f)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given	या गया है था । n pre-natal or pot+naal आदि के 1	l treatment. लिए रु.	खर्च लिए गए ।
	(চ্চ) (f) (ज)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श प	या गया है था । n pre-natal or pot+naal आदि के f र (अस्पताल का	l treatment. लिए रु. में / प्रयोग शाला का नाम)	लिए गए ।
	(চ) (f)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण	या गया है था । n pre-natal or pot+naal आदि के र (अस्पताल का etc, for whiele an expe	l treatment. लिए रू. में / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs.	लिए गए ।
	(চ্চ) (f) (ज)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर that the X-Ray, Laboratory tests	या गया है था । n pre-natal or pot+naal आदि के र (अस्पताल का etc, for whiele an expe	l treatment. लिए रू. में / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs.	लिए गए ।
	(চ্চ) (f) (ज)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary an	या गया है था । n pre-natal or pot+naal आदि के र (अस्पताल का etc, for whiele an expe	l treatment. लिए रु. / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs.————————————————————————————————————	लिए गए ।
	(চ্চ) (f) (ज)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary an	या गया है था । n pre-natal or pot+naal आदि के श (अस्पताल का etc, for whiele an expe	l treatment. लिए रु. / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs.————————————————————————————————————	लिए गए ।
	(ছ) (f) (ज)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary an	या गया है था । n pre-natal or pot+naal आदि के श (अस्पताल का etc, for whiele an expe	l treatment. लिए रु. / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs.————————————————————————————————————	लिए गए ।
	(ছ) (f) (ज)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary an (Name of Hos मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डॉ. के अधीन	या गया है था । n pre-natal or pot+naal आदि के श (अस्पताल का etc, for whiele an expe	treatment. लिए रु. / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs, on my advice at	लिए गए ।
	(ছ) (f) (ज)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary an (Name of Hos मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डॉ. के अधीन	या गया है था ।  n pre-natal or pot+naal आदि के श (अस्पताल का etc, for whiele an expend which undertaken of pital or Laboratory)  / प्रयोग शाला का नाम)	treatment. लिए रु. / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs, on my advice at	लिए गए ।
	(ছ) (f) (জ)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary an (Name of Hos मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डॉ. के अधीन	या गया है था । n pre-natal or pot+naal	treatment. लिए क. / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs. on my advice at के पास भे	लिए गए ।
	(ছ) (f) (জ)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary an (Name of Hos मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डॉ. के अधीन (अस्पताल का that I referred he patient to Dr.	या गया है था । n pre-natal or pot+naal	treatment. लिए क. / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs. on my advice at के पास भे	लिए गए ।
	(ছ) (f) (জ)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary an (Name of Hos मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डॉ. के अधीन (अस्पताल का that I referred he patient to Dr. for specialist consultation and the	या गया है था । n pre-natal or pot+naal	treatment. लिए क. / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs. on my advice at के पास भे	लिए गए ।
	(ছ) (f) (জ)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर् that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary an (Name of Hos मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डॉ. के अधीन (अस्पताल का that I referred he patient to Dr. for specialist consultation and the (Name of Hos as required under the rules, was	या गया है था। n pre-natal or pot+naal आदि के  र (अस्पताल का etc, for whiele an expend which undertaken of pital or Laboratory) / प्रयोग शाला का नाम) hat the necessary appropriate or Laboratory) as obtained.	treatment. लिए क. / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs. on my advice at के पास भे का आवश्यक अनुमोदन प्रा	लिए गए ।
	(ছ) (f) (জ)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary an (Name of Hos मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डॉ. के अधीन (अस्पताल का that I referred he patient to Dr. for specialist consultation and the	या गया है था। n pre-natal or pot+naal आदि के  र (अस्पताल का etc, for whiele an expend which undertaken of pital or Laboratory) / प्रयोग शाला का नाम) hat the necessary appropriate or Laboratory) as obtained.	treatment. लिए क. / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs. on my advice at के पास भे का आवश्यक अनुमोदन प्रा	लिए गए ।
	(ছ) (f) (জ) (g)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर् that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary an (Name of Hos मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डॉ. के अधीन (अस्पताल का that I referred he patient to Dr. for specialist consultation and the (Name of Hos as required under the rules, was	या गया है था।  n pre-natal or pot+naal आदि के  र  (अस्पताल का etc, for whiele an expend which undertaken of pital or Laboratory)  / प्रयोग शाला का नाम)  hat the necessary appropriate or Laboratory) as obtained. evan नहीं था / आवश्यक	treatment. लिए क.  / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs. on my advice at  के पास भे का आवश्यक अनुमोदन प्रा	लिए गए ।
	(要) (f) (可) (g) (事)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर् that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary and (Name of Hos मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डॉ. के अधीन (अस्पताल का that I referred he patient to Dr. for specialist consultation and the (Name of Hos as required under the rules, wa रोगी को अस्पताल में भर्ती करना आवश्य that the patient did not require	या गया है था । n pre-natal or pot+naal आदि के न (अस्पताल का etc, for whiele an expend which undertaken of pital or Laboratory)  / प्रयोग शाला का नाम) hat the necessary appropriate or Laboratory) as obtained. evan नहीं था / आवश्यक / required hospitalisate	treatment. लिए रु.  / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs. on my advice at  के पास भे का आवश्यक अनुमोदन प्रा	लिए गए ।
दिनांक	(ছ) (f) (জ) (g) (झ) (h)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर् that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary and (Name of Hos मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डॉ. के अधीन (अस्पताल का that I referred he patient to Dr. for specialist consultation and the (Name of Hos as required under the rules, wa रोगी को अस्पताल में भर्ती करना आवश्	या गया है था ।  n pre-natal or pot+naal आदि के  र  (अस्पताल का etc, for whiele an expend which undertaken of pital or Laboratory)  / प्रयोग शाला का नाम)  hat the necessary appropriate or Laboratory) as obtained. evan नहीं था / आवश्यक / required hospitalisate  चिकित्सा अधिकारी के ह	treatment. लिए क.  / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs. on my advice at  के पास भे का आवश्यक अनुमोदन प्रा	लिए गए ।
दिनांक	(ছ) (f) (জ) (g) (झ) (h)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर् that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary and (Name of Hos मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डॉ. के अधीन (अस्पताल का that I referred he patient to Dr. for specialist consultation and the (Name of Hos as required under the rules, wa रोगी को अस्पताल में भर्ती करना आवश्य that the patient did not require	या गया है था।  n pre-natal or pot+naal	treatment. लिए क.  / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs. on my advice at  के पास भे का आवश्यक अनुमोदन प्रा  roval of the  etion. etan क्षेत्र /पदनाम और डिर्ग्र	लिए गए ।
दिनांक	(ছ) (f) (জ) (g) (झ) (h)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर् that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary and (Name of Hos मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डॉ. के अधीन (अस्पताल का that I referred he patient to Dr. for specialist consultation and the (Name of Hos as required under the rules, wa रोगी को अस्पताल में भर्ती करना आवश्य that the patient did not require	या गया है था ।  n pre-natal or pot+naal	treatment. लिए क.  / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs. on my advice at  के पास धे को पास धे	लिए गए । जा था निय प्त किया गय पेतथा सम्ब
दिनांक	(ছ) (f) (জ) (g) (झ) (h)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर् that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary and (Name of Hos मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डॉ. के अधीन (अस्पताल का that I referred he patient to Dr. for specialist consultation and the (Name of Hos as required under the rules, wa रोगी को अस्पताल में भर्ती करना आवश्य that the patient did not require	या गया है था ।  n pre-natal or pot+naal	treatment. लिए क.  / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs. on my advice at  के पास भे का आवश्यक अनुमोदन प्रा roval of the  etion. etan भार विश्व	लिए गए । जा था निय प्त किया गय पेतथा सम्ब
दिनांक	(ছ) (f) (জ) (g) (झ) (h)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर् that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary and (Name of Hos मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डॉ. के अधीन (अस्पताल का that I referred he patient to Dr. for specialist consultation and the (Name of Hos as required under the rules, wa रोगी को अस्पताल में भर्ती करना आवश्य that the patient did not require	या गया है था ।  n pre-natal or pot+naal	treatment. लिए क.  / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs. on my advice at  के पास भे का आवश्यक अनुमोदन प्रा roval of the  etion. etan भार विश्व	लिए गए । जा था निय प्त किया गय पेतथा सम्ब
	(ছ) (f) (জ) (g) (झ) (h)	रोगी का प्रसवपूर्व / प्रसवोत्तर उपचार किय that the patient is/was not given एक्स-रे, प्रयोगशाला परीक्षण हुए, जो आवश्यक थे और ये मेरे परामर्श पर् that the X-Ray, Laboratory tests was incurred, were necessary and (Name of Hos मैंने रोगी को विशेष परामर्श के लिए डॉ. के अधीन (अस्पताल का that I referred he patient to Dr. for specialist consultation and the (Name of Hos as required under the rules, wa रोगी को अस्पताल में भर्ती करना आवश्य that the patient did not require	या गया है था।  n pre-natal or pot+naal	treatment. लिए क.  / प्रयोग शाला का नाम) enditure of Rs. on my advice at  के पास भे का आवश्यक अनुमोदन प्रा roval of the  etion. etan भार विश्व	लिए गए । जा था निय प्त किया गय पे तथा सम्ब

वि. सू. : जो प्रमाणपत्र लागू न हो उसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा हटाया जाए ।

N.B.: Certificate not applicable should be struck off by the medical officer in all cases.